

पोषण सुरक्षा: एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण

यह एडिटरियल 20/10/2023 को 'हट्टि बिजनेस लाइन' में प्रकाशित [“An opportunity to recast India's food system”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत की खाद्य प्रणाली के समकक्ष वदियमान चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में चर्चा की गई है और उपभोक्ताओं, उत्पादकों एवं मध्यस्थों को संलग्न करते करते हुए एक त्रयी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें स्वस्थ एवं सतत आहार को बढ़ावा देने, कृषि आय की वृद्धि करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लक्ष्य पर भी विचार किया गया है।

प्रलिस के लिये:

[वशिव बैंक](#), [मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा](#), [आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंवदि \(ICESCR\)](#), [कुपोषण](#), [मनरेगा](#), [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#), [मध्याह्न भोजन](#), [प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मशिन](#), [कसिान उत्पादक संगठन \(FPO\)](#)

मेन्स के लिये:

खाद्य सुरक्षा: महत्त्व, स्थिति, चुनौतियाँ और आगे की राह

16 अक्टूबर को [‘वशिव खाद्य दविस’ \(World Food Day\)](#) मनाया गया, लेकिन हम खाद्य को एक प्रणाली या तंत्र के रूप में कम ही देखते हैं। खाद्य प्रणाली की चुनौतियों को भारत से बेहतर कोई देश नहीं समझ सकता, जसै दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरना पड़ता है। जबकि खाद्य प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिये [पोषण सुरक्षा \(nutrition security\)](#) सुनिश्चित करना है, इसे सतत या संवहनीय रूप से तभी प्राप्त किया जा सकता है जब खाद्य उत्पादक ऐसे उपयुक्त आर्थिक प्रतिलाभ प्राप्त करें जो समय के साथ प्रत्यास्थी (resilient) सदिध हो।

यह प्रत्यास्थता हमारे प्राकृतिक पारस्थितिकी तंत्र की प्रत्यास्थता से जटिल रूप से जुड़ी हुई है क्योंकि कृषि के लिये सबसे बड़े आदान या इनपुट—जैसे मृदा, जल एवं जलवायु दशाएँ, प्राकृतिक संसाधन ही हैं। आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के इस अंतरसंबंध को महत्त्व देना हमारी खाद्य प्रणाली को वास्तव में संवहनीय बनाने के लिये आवश्यक है।

पोषण सुरक्षा का क्या महत्त्व है?

- **स्वास्थ्य और पोषण:** [पोषण सुरक्षा](#) कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं—जैसे स्टंटिंग, संज्ञानात्मक अपंगता एवं रोग संवेदनशीलता को रोककर व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सेहत में सुधार करती है।
 - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 45% मौतें कुपोषण से संबद्ध होती हैं।
- **आर्थिक स्थिरता:** पोषण सुरक्षा व्यक्तियों और राष्ट्रों को अधिक उत्पादक बनने, आय उत्पन्न करने और व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनकी आर्थिक स्थिरता की वृद्धि करती है।
 - [वशिव बैंक](#) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि उत्पादकता की हानि और मानव पूंजी के संदर्भ में कुपोषण **कैश्वक लागत प्रति वर्ष 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** थी।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी:** पोषण संबंधी सुरक्षा मधुमेह और हृदय रोग जैसी आहार-संबंधी बीमारियों को रोककर स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकती है। इससे फरि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ कम होता है।
 - कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure- THE) में [जेबी खर्च \(Out-of-Pocket Expenditure- OOPe\)](#) की हसिसेदारी लगभग 47% है।
- **नरिधनता उन्मूलन:** यह सुनिश्चित करना क लोगों को **पोषक भोजन मलि, नरिधनता उन्मूलन** का एक साधन है। पोषण संबंधी सुरक्षा का अभाव **नरिधनता चक्र (cycle of poverty) को बनाये** रख सकता है, क्योंकि कुपोषण शैक्षिक प्रारप्ता में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आय-अर्जन क्षमता को कम कर सकता है।
- **सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण:** पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में प्रायः सतत कृषि अभ्यास भी शामिल होते हैं, जो पर्यावरण को संरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करना:** पोषण सुरक्षा जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है; यह परिदृश्य तब उत्पन्न होता है जब कसिी देश की आबादी का एक बड़ा भाग **कार्यशील आयु** वर्ग में होता है। सुपोषित व्यक्तियों के उत्पादक होने और आर्थिक विकास में योगदान करने की अधिक संभावना होती है, इसलिये जनसांख्यिकीय लाभ का पूर्ण दोहन किया

जाना चाहिये।

- **झटकों के प्रतिप्रत्यास्थता:** पोषण संबंधी सुरक्षा समुदायों और व्यक्तियों को आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी झटकों के प्रतिअधिक प्रतिप्रत्यास्थी बनने में मदद करती है। **विविध और पोषक आहार ग्रहण करने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं या स्वास्थ्य आपात स्थितियों** जैसे विभिन्न संकटों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद मलि सकती है।
 - **कोविड-19** महामारी ने खाद्य प्रणालियों की भंगुरता/संवेदनशीलता और कृषोषण एवं भुखमरी के प्रतिवृहत आबादी की भेद्यता को उजागर कर दिया है। इसलिये, **स्वस्थ भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करना और आहार विविधता को बढ़ावा** देना ऐसी महामारियों एवं इनके प्रभावों के वरिद्ध प्रतिप्रत्यास्थता के नरिमाण के लिये आवश्यक है।
- **मानव गरमा और समता:** पोषण सुरक्षा खाद्य को एक बुनयिदी मानव अधिकार के रूप में चहिनति कर मानवीय गरमा और समता का सम्मान करती है जो सभी लोगों के लिये उनकी **सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति पर विचार** किये बिना सुलभ होना चाहिये।
 - **खाद्य या भोजन का अधिकार (right to food)** एक कानूनी अधिकार है जसि **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration on Human Rights)** और **आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंवदि (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR)** में भी मान्यता प्राप्त है।

भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति

- पोषण के मोर्रे पर भारत **कृषोषण के दोहरे बोझ (double burden of malnutrition)** का सामना कर रहा है।
 - एक ओर, पछिले कुछ वर्षों में व्यापक प्रगति के बावजूद भारतीय आबादी के एक बड़े भाग में पोषक तत्वों की कमी प्रदर्शति होती है।
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21** के अनुसार **35% बच्चे स्टंटिंग** के शकार हैं, जबकि **57% महिलाएँ और 25% पुरुष एनीमिया** से पीड़ति हैं।
 - दूसरी ओर, असंतुलति आहार और गतहीन जीवन शैली के कारण **24% वयस्क महिलाएँ और 23% वयस्क पुरुष मोटापे से ग्रस्त** हैं।

पोषण सुरक्षा के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **कृषिकी नमिन उत्पादकता:**
 - उत्पादन के मामले में, सीमांत और छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कृषि आय अपर्याप्त है।
 - **‘ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन’** की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68% से अधिक सीमांत किसान अपनी आय को गैर-कृषि गतिविधियों से पूरकता प्रदान करते हैं।
 - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/ MGNREGA)** के तहत प्रदत्त श्रम और अन्य प्रकार के अस्थायी श्रम में कमी आ रही है जो आय विविधीकरण के लिये कौशल या अवसरों की कमी का संकेत देता है।
- **घटते प्राकृतिक संसाधन:**
 - घटते प्राकृतिक संसाधन और बदलती जलवायु भारत के खाद्य उत्पादन को अत्यधिक असुरकषति बना रही है।
 - वर्ष 2023 के मृदा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में कृषियोग्य भूमिके लगभग आधे भाग में जैविक कार्बन—जो मृदा स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेतक होता है, की कमी हो गई है।**
 - भूजल—जो सचिई का सबसे बड़ा स्रोत है, तेजी से घटता जा रहा है।
 - पंजाब जैसे राज्यों में **75% से अधिक भूजल आकलन स्थानों (groundwater assessment locations)** का अत्यधिक दोहन किया गया है, जसिसे कृषि आय की प्रतिप्रत्यास्थता को खतरा पहुँच रहा है।
- **दोषपूर्ण खाद्य वतिरण प्रणाली:**
 - सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से अपर्याप्त खाद्य वतिरण बढ़ती खाद्य असुरक्षा में योगदान देता है। **लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (Targeted PDS- TPDS)** दोषपूर्ण मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों को अपवर्जति कर देता है, जसिसे APL या BPL के रूप में दोषपूर्ण वर्गीकरण की स्थिति बनती है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उठाव में कमी आती है और नमिन गुणवत्तायुक्त अनाज एवं PDS दुकान की बढहाल सेवा के कारण स्थिति बढतर बन जाती है।
- **पोषण कार्यक्रमों की नगिरानी का अभाव :**
 - देश में कई योजनाएँ लाई गई हैं जो पोषण में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन इन्हें ठीक से क्रयान्वति नहीं किया गया है।
 - उदाहरण के लिये, कई राज्य **मध्याह्न भोजन योजना (MDMS)** को प्रभावी ढंग से लागू करने में वफिल रहे हैं।
- **अंतर-क्षेत्रीय समन्वय का अभाव :**
 - सुसंगत खाद्य एवं पोषण नीतियों की कमी के साथ-साथ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों—जैसे **महिला एवं बाल स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषिमंत्रालय, वतित मंत्रालय आदि** के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की कमी ने समस्या को बढा दिया है।

पोषण सुरक्षा को संबोधति करने हेतु क्या दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है?

- **उपभोक्ता संलग्नता और मांग में बदलाव:**
 - उपभोक्ता मांग को स्वस्थ एवं सतत आहार की ओर स्थानांतरति करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे **खाद्य विकल्पों को अपनाने की जरूरत** है जो **लोगों के लिये और हमारे ग्रह के लिये स्वास्थ्यवर्द्धक** हो।
 - हम नगिमों द्वारा उपयोग किये जा रहे दृष्टिकोण का पालन करते हुए आयातति की जाती **जई/ओट्स या क्विनोआ** की तरह ही भारत में स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले **मोटें अनाजों (millets)** को लोकप्रिय बना सकते हैं।
 - नागरिक समाज और स्वास्थ्य समुदाय सोशल मीडिया **इन्फ्लुएंसर्स** के साथ साझेदारी का नरिमाण कर लाखों लोगों के लिये स्वस्थ

एवं **संवहनीय उपभोग** को आकार दे सकते हैं।

- **सार्वजनिक कषेत्र PDS, मध्याह्न भोजन, रेलवे खानपान, अरबन कैंटीन और सार्वजनिक एवं संस्थागत** खरीद के माध्यम से कम से कम 70% भारतीयों के उपभोग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- धार्मिक संस्थाएँ भी खाद्य वकिलों को प्रभावित करने के रूप में योगदान दे सकती हैं, जैसा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् द्वारा किया जा रहा है।

- तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्—जो प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है, अब प्राकृतिक रूप से उगाये गए उत्पादों की खरीद कर रहा है।

■ कृषक और सतत कृषि का समर्थन:

- हमें किसानों को लाभकारी एवं पुनर्योजी कृषि अभ्यासों की ओर आगे बढ़ने का समर्थन करना चाहिये ताकि उनके लिये प्रत्यास्थ आय सुनिश्चित हो सके।
 - **प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Natural Farming)** इस दशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सतत कृषि के लिये कुल वित्तपोषण कृषि बजट के 1% से भी कम है।
 - हमें विभिन्न **कृषि-पारिस्थितिकी अभ्यासों—जैसे कि कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, परिशुद्ध खेती** आदि के लिये ऐसी पहलों को व्यापक और वसितारित करने की आवश्यकता है।
- कृषि सहायता को इनपुट सब्सिडी से आगे बढ़ते हुए प्रति हेक्टेयर खेती के लिये किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता देने की ओर केंद्रित होना चाहिये।
 - यह इनपुट के कुशल उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही **कृषि-पारिस्थितिकी अभ्यासों के फलने-फूलने** के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- कृषि अनुसंधान और वसितार सेवाओं को अपने बजट का एक हिस्सा सतत कृषि अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये आवंटित करना चाहिये, जो किसानों को सतत कृषि के लिये आवश्यक ज्ञान एवं उपकरण प्रदान कर सकता है।

■ संवहनीय 'फार्म-टू-फोर्क' मूल्य शृंखला का निर्माण करना:

- ग्रामीण आय बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों को सृजित मूल्य का उचित हिस्सा प्राप्त हो, अधिक संवहनीय एवं समावेशी मूल्य शृंखला का निर्माण करना महत्त्वपूर्ण है।
- मध्यस्थों और नगिर्मों को किसानों से प्रत्यक्ष खरीद के लिये प्रोत्साहित करना—**बशेष रूप से उन किसानों से जो संवहनीय एवं नैतिक अभ्यासों का पालन करते हैं**, महत्त्वपूर्ण है।
 - **'रेस्पॉसिबिल सोर्सिंग' (responsible sourcing)** को बढ़ावा देने के लिये नषिपक्ष व्यापार सदिधातों जैसे प्रोत्साहनों को लागू किया जा सकता है।
 - **'DeHaat' और 'Ninjacart'** जैसे विभिन्न नए एग्री-टेक उद्यम ऐसे **'फार्म-टू-बायर लकिंज'** को संकषम कर रहे हैं।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को अन्य FPOs के साथ अपनी उपज का व्यापार करने की अनुमति देने से किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि FPOs में शामिल किसान परिवार भी कृषि उत्पाद की खरीद करते हैं।
 - ओडिशा में कुछ FPOs पहले ही इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं।
 - **ओडिशा ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन (OOFA) जैविक उत्पादों के उत्पादन से संलग्न FPOs का एक संघ है। OOFA ओडिशा में अन्य FPOs के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों के FPOs के साथ जैविक उत्पादों का व्यापार करता है। इससे OOFA को अपने सदस्यों के उत्पादों के लिये बेहतर मूल्य पाने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद मिली है।**

नषिकर्ष

संपूर्ण खाद्य प्रणाली को स्थानांतरित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन चुनौती के पैमाने से हमारी महत्त्वाकांक्षाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिये। यदि हम तेज़ी से कार्य करें तो भारत के पास शेष विश्व को यह दिखाने का एक अनूठा अवसर मौजूद है कि अपनी खाद्य प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाए।

अभ्यास प्रश्न: भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति पर विचार कीजिये, इसके समक्ष वदियमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिये और इन चुनौतियों से निपटने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

Q.1 जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट गाँव' दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS), एक अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यक्रम के नेतृत्व में एक परियोजना का एक हिस्सा है।
2. CCAFS की परियोजना फ़ॉरस स्थिति अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान (CGIAR) के सलाहकार समूह के तहत की जाती है।
3. भारत में अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिये अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) CCAFS के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Q.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL)' की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, घर की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का 'टेक-होम राशन' मलित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (b)

Q.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ मूल्य सब्सिडी के स्थान पर भारत में सब्सिडी का परिदृश्य किस प्रकार बदल सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ensuring-nutritional-security-a-three-pronged-approach>

